



# जागरण

## नकली फॉर्चून सरसों तेल बनाने का भंडाफोड़, धंधेबाज फरार

Publish Date: Wed, 29 May 2019 06:25 AM (IST)



नवादा नगर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चेताबिगहा गांव में मंगलवार की दोपहर पुलिस ने छापेमारी कर नकली सरसों तेल के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है। छापेमारी फॉर्चून कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह की पुख्ता सूचना के आलोक में की गई। इस क्रम में धंधेबाज फरार होने में सफल रहा। इस बावत कंपनी के जांचकर्ता के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच आरंभ की गई है।

थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि चेताबिगहा गांव के एक घर में नकली फॉर्चून कंपनी का सरसों तेल का कारोबार किए जाने की सूचना दी। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई के तहत मुखलाल यादव पिता स्व. सुखदेव यादव के मकान और दुकान से फॉर्चून कंपनी का 120 बोटल नकली सरसों तेल, 1000 खाली बोटल, 3000 रैपर तथा निर्माण की अन्य सामग्री बरामद की गई।

आरोपित मौके से फरार हो गया। इस बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच आरंभ की गई है। छापेमारी में थानाध्यक्ष मोहन कुमार, अनि नंदकिशोर सिंह समेत कंपनी से जुड़े कई अधिकारी व पुलिस के जवान शामिल थे।

कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कई महीनों से हमें सूचना मिल रही थी कि यहां नकली फॉर्चून तेल बनाकर थोक कारोबार किया जा रहा है। जिससे हमारी कंपनी का सही तेल की बिक्री प्रभावित हो रही थी। थाने में लिखित सूचना देकर छापेमारी के लिए पुलिस बल की मांग की गई। थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने एक टीम गठित करते हुए एसआइ एनके सिंह के साथ कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार की नेतृत्व में उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां जो कुछ बरामद हुआ उससे आरोपों की पुष्टि हुई।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/bihar/nawada-fake-fortune-busted-to-make-mustard-oil-fugitive-absconding-19263519.html>